(An ISO 9001:2015 Certified Company)

Date: 25.02.2025

To,

National Stock Exchange of India Ltd.

Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai – 400 051

Dear Sir / Madam

<u>Sub: Submission of Newspaper Cutting of Extra-Ordinary General Meeting (EGM) and</u> Information on E-voting and other related information

With reference to above captioned subject, please find enclosed newspaper advertisement published in following newspapers on February 25<sup>th</sup>, 2025: Financial Express (English) and Business Remedies (Hindi Edition) intimating about the Notice of the Extra-Ordinary General Meeting, E-voting information to Shareholders of the Company to be held through Video Conferencing / Other Audio-Visual Means.

The same will also be available on the website of the Company: www.mbapl.com

This is for your information and record.

For Madhya Bharat Agro Products Limited

(Pallavi Sukhwal) Company Secretary

### कॉर्पोरेट वर्ल्ड/कंपनी फोकस

# आज खुलेगा 'श्रीनाथ पेपर प्रोडक्ट्स लिमिटेड'का आईपीओ

निवेशक 28 फरवरी 2025 तक कर सकेंगें कंपनी के आईपीओ में आवेदन



बिजनेस रेमेडीज/जयपुर। महाराष्ट्र के औरंगाबाद आधारित 'श्रीनाथ पेपर प्रोडक्ट्स लिमिटेड' उद्योगों को कोटेड, खाद्य-ग्रेड, मशीन-ग्लेज्ड और ऐडहेसिव पेपर प्रदान करने वाली प्रमुख कंपनी है। कंपनी द्वारा कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों की पर्ति हेत बीएसई एसएमई प्लेटफार्म पर आईपीओ लाया जा रहा है। कंपनी का आईपीओ आज खलकर 28 फरवरी को बंद होगा।

यह करती है कंपनी: 2011 में निगमित, श्रीनाथ पेपर प्रोडक्ट्स लिमिटेड उन उद्योगों को आपूर्ति श्रृंखला समाधान प्रदान करने में लगी हुई है जो अपनी विनिर्माण प्रक्रियाओं में कोटेड, खाद्य-ग्रेड, मशीन-ग्लेज्ड और एडहेसिव पेपर जैसी कागज सामग्री का उपयोग करते हैं। कंपनी विभिन्न कागजों की आपूर्ति करती है, जिनमें सिब्लमेशन बेस पेपर, थर्मल बेस पेपर, स्ट्रॉ पेपर, कप स्टॉक पेपर, सुरक्षा पीएसए शीट, उच्च शक्ति वाले पेपर, सी2एस और सी1एस पेपर इत्यादि शामिल हैं।

कंपनी का वित्तीय प्रदर्शनः वित्त वर्ष 2022 में कंपनी ने

141.75 करोड़ रुपए का राजस्व एवं १.३४ करोड़ रुपए का कर पश्चात शुद्ध लाभ वित्त वर्ष 2023 में कंपनी ने 206.7 करोड़ रुपए का राजस्व एवं ४.३८ करोड़ रुपए का कर पश्चात शुद्ध लाभ और वित्त वर्ष 2024 में कंपनी ने 189.67 करोड़ रुपए का राजस्व और 4.39 करोड़ रुपए का कर पश्चात शुद्ध लाभ अर्जित किया है। वित्त वर्ष 2025 में 31 दिसंबर 2024 को समाप्त अवधि में कंपनी ने 78.62 करोड़ रुपए का राजस्व और 2.41 करोड़ रुपए का कर पश्चात शृद्ध लाभ अर्जित किया है। वित्तीय परिणामों से स्पष्ट है कि कंपनी साल दर साल अच्छे वित्तीय परिणाम प्रस्तुत कर रही है। वित्त वर्ष 2025 में 31 दिसंबर 2024 को समाप्त अवधि में कंपनी ने 3.06 फीसदी का कर पश्चात शुद्ध लाभ मार्जिन अर्जित किया है। वित्त वर्ष 2025 में 31 दिसंबर 2024 को समाप्त अवधि में कंपनी की असेट्स 62.25 करोड़ रुपए, नेटवर्थ 21.34 करोड़ रुपए, रिजर्व एंड सरप्लस 6.99 करोड़ रूपए और कूल कर्ज 31.37 करोड़ रुपए



IPO Date	February 25, 2025 to February 28, 2025
Listing Date	March 5, 2025
Face Value	₹10 per share
Issue Price	₹44 per share
Lot Size	3,000 Shares
Total Issue Size	53,10,000 shares (aggregating up to ₹23.36 Cr)
Fresh Issue	53,10,000 shares (aggregating up to ₹23,36 Cr)
Issue Type	Fixed Price Issue IPO
Listing At	BSE SME
Share Holding Pre Issue	1,43,44,200 shares
Share Holding Post Issue	1,96,54,200 shares
Market Maker Portion	2,82,000 shares Pure Broking Private Limited

आईपीओ के संबंध में 'श्रीनाथ पेपर प्रोडक्ट्स लिमिटेड' का आईपीओ बीएसई एसएमई प्लेटफार्म पर आज ख़ुलकर 28 फरवरी 2025 को बंद होगा। कंपनी द्वारा 10 रुपए फेसवैल्यु के 53,10,000 शेयर ४४ रूपए प्रति शेयर के भाव

पर जारी कर 23.36 करोड़ रुपए ज़ुटाए जा रहे हैं। आईपीओ का मार्केट लॉट साइज 3000 शेयरों का है। आईपीओ का प्रबंधन प्रमुख लीड मैनेजर कंपनी गैलेक्टिको कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। नोट: यह लेख निवेश सलाह नहीं है।

# रिफ्रैक्टरी शेप्स लिमिटेड' को जेएसडब्ल्यू द्वारा डॉल्वी प्लांट, बार मिल के लिए रेफ्रेक्ट्रीज की आपूर्ति और अनुप्रयोग के लिए 3.13 करोड़ रुपये का ऑर्डर दिया गया

बिजनेस रेमेडीज/जयपुर। मुंबई आधारित 'रिफ्रैक्टरी शेप्स लिमिटेड' विभिन्न प्रकार की ब्रिक्स, कास्टेबल्स, हाई एल्युमिना कैटालिस्ट और सिरेमिक बॉल्स निर्माण करने वाली देश की प्रमुख कंपनी है। कंपनी ने शेयर बाजारों को सूचित किया है कि कंपनी को जेएसडब्ल्यू, डॉल्वी प्लांट, बार मिल के लिए रेफ़ेक्ट्रीज की आपूर्ति और अनुप्रयोग के लिए 3.13 करोड़ रुपये का ऑर्डर दिया गया है। यह ऑर्डर जेएसडब्ल्यू के साथ कंपनी की मजबूत वि ेता साझेदारी को और दोहराता है।

यह करती है कंपनी: रिफ्रैक्टरी शेप्स लिमिटेड की स्थापना 1996 में हुई थी और यह विभिन्न प्रकार की ब्रिक्स, कास्टेबल्स, हाई एल्यूमिना कैटालिस्ट और सिरेमिक बॉल्स बनाती है।

भी आसान होगा। एम्फी और सेबी

म्युचुअल फंड निवेश को सभी के लिए

आसान बनाना चाहते हैं। इन नई पहलों से

समाज के हर वर्ग के लोग निवेश से जुड़

सकेंगे। छोटे निवेशकों को म्यूचुअल

फंड्स से जोड़ने के लिए एसोसिएशन ऑफ

म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया या भारतीय

म्यूचुअल फंड संघ (एम्फी) ने तीन पहल

छोटी एसआईपी के तहत निवेशक

जारी की हैं।



कंपनी की उत्पाद सूची में प्री-कास्ट और प्री-फायर्ड ब्लॉक (पीसीपीएफ), बर्नर ब्लॉक, विशेष आकार की रिफ्रैक्टरी ईंटें, सघन और इंसुलेटिंग कास्टेबल और मोर्टार शामिल हैं। कंपनी को धातु एंकरों के लिए भी ऑर्डर मिलते हैं, जिनका उपयोग रिफ्रैक्टरी कारिटंग की स्थापना के लिए समर्थन के रूप में किया जाता है और जिसके लिए कच्चे

एम्फी ने निवेशकों के लिए तीन नई पहल 'छोटी

माल जैसे टेबुलर एल्यूमिना, लो एल्यूमिना ब्रिक्स और इन्सुलेट ब्रिक्स आदि की आवश्यकता होती है। कंपनी की विनिर्माण सविधाएं पिंपरी औद्योगिक क्षेत्र, पुणे, महाराष्ट्र में स्थित हैं, जिसका कुल क्षेत्रफल 34,788 वर्ग फुट है, और गुजरात के वांकानेर, मोरबी जिले में, जिसका कुल क्षेत्रफल 1,74,246 वर्ग फूट है। कंपनी एक उत्पादन इकाई का विस्तार करने जा रही है, जहां एक अतिरिक्त भट्टी जोडने और प्रेसिंग मशीनों के साथ विभिन्न प्रकार की रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स के निर्माण के लिए गुजरात के वांकानेर में मौजूदा इकाई के पास 1,74,240 वर्ग फुट क्षेत्रफल वाली अतिरिक्त ४ एकड् भूमि पर इकाई स्थापित होगी।

#### कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता. सार्वजनिक निर्माण विभाग. खण्ड फागी

निविदा संशोधन आदेश

इस कार्यालय के पत्रांक 850 दिनांक 05.02.2025 द्वारा अल्पकालिन निविदा सूचना संख्या 14/2024-25 आमंत्रित की गई थी जिसमें दिनांक 07.02, 2025 से 13.02.2025 तक डाउनलोड/अपलोड की जाकर दिनांक 14.02.2025 को सार्य 03:00 बजे तक खोली जानी थी जौ कि अपरिहार्य तकनिकी कारणों से इस कार्यालय के निविदा संशोधन आदेश संख्या 616 दिनांक 10.02.2025 द्वारा दिनांक 20.02.2025 को सायं 06:00 बजे तक डाउनलोड/अपलोड की जाकर दिनांव 21.02.2025 खोली जानी थी एवं क्रमांक 666 दिनांक 19.02.2025 द्वारा दिनांक 24.02.2025 को सायं 06:00 बजे तव डाउनलोड/अपलोड की जाकर दिनांक 25.02.2025 खोली जानी थी को पुनः अपरिहार्य/तकनिकी कारणों (ई-ग्रास फ चालान नहीं बनने एवं समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं होने) से दिनांक 27.02.2025 को सायं 6:00 बजे तक इउनलोड/अपलोड की जाकर दिनांक 28.02.2025 को सायं 03:00 बजे खोली जायेगी कार्य एवं शर्ते यथावत रहेगी।



ञ्लोब इंटरनेशनल कैरियर्स लिमिटेड सीआईएन: L60232RJ2010PLC031380

पंजीकत कार्यालय: 301 - 306, प्रकाश दीप कॉम्प्लेक्स, मयंक टेड सेंटर के पास, स्टेशन रोड जयपुर, राजस्थान - 302006, संपर्क नंबर 0141-2361794, 2368794

दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, २०१५ के सामान्य परिपत्र संख्या १४/२०२०, १७/२०२० के सपठित 20/2020,02/2021, 21/2021, 2/2022 और 10/2022 दिनांक 08 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020, 05 मई 2020, 13 जनवरी 2021, 14 दिसंबर 2021, 05 मई 2022 और 28 दिसंबर 2022 क्रमशः, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी ('एमसीए परिपत्र') और परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई 2020, सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी 2021, सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2022/62 दिनांक 13 मई 2022 और भारतीय प्रतिभति विनिमय बोर्ड द्वारा जारी परिपन्न संख्या सेबी/एचओ/ सीएफडी/पीओडी-2/पी/सीआईआर/2024/4 दिनांक 5 जनवरी, 2024 ('सेबी परिपत्र') की अनुपालना में ग्लोब इंटरनेशनल कैरियर्स लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की असाधारण सामान्य बैठक ('ईजीएम') बुधवार, 19 मार्च, 2025 को अपराह्न 03:00 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी') या अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम ('ओएवीएम') सुविधा के माध्यम से, एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना

ईजीएम की सूचना केवल उन सभी सदस्यों को ई-मेल द्वारा भेजी जाएगी, जिनके ई-मेल पते एमसीए परिपत्र और सेबी

परिपत्र के अनुसार कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत हैं। सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ईजीएम में शामिल हो सकते हैं और भाग ले सकते हैं। ईजीएम में शामिल होने के निर्देश और ईजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग में भाग लेने या ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट डालने के तरीके ईजीएम के नोटिस में दिए गए हैं। वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा। ईजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट <u>www.gicl.co</u> और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट

सक्स्यों से अनुरोध है कि वे डिपॉजिटरी प्रतिभागी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ डीमैट होल्डिंग्स के संबंध में अपना ई-मेल पता पंजीकत करें। जिन सबस्यों ने अपना ईमेल पता पंजीकत नहीं किया है, वे ईजीएम की सुचना में वर्णित प्रक्रिया का पालन करके बैठक के दौरान रिमोट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं। किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य सहायता अनुभाग के अंतर्गत www.evotingindia.com पर उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ('एफएक्यू') और ई-वोटिंग मैनुअल

> ग्लोब इंटरनेशनल कैरियर्स लिमिटेड के लिए अन्न शर्मा खंडेलवाल

स्थान- भीलवाडा

# जीपी इको सॉल्यूशंस इंडिया लिमिटेड ने २०० मेगावाट से अधिक की सौर इनवर्टर की आपूर्ति के लिए एक ऑर्डर हासिल किया

बिजनेस रेमेडीज/नई दिल्ली। नोएडा आधारित 'जीपी इको

सॉल्यूशंस इंडिया लिमिटेड' सोलर इनवर्टर और सोलर पैनल उपलब्ध कराने के साथ ग्राहकों को सोलर ईपीसी सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी है। कंपनी ने शेयर बाजारों को सूचित किया है कि कंपनी ने 200 मेगावाट से अधिक की सौर इनवर्टर की आपूर्ति के लिए एक ऑर्डर हासिल कर लिया है, जिसे मार्च 2025 के अंत तक निष्पादन के लिए निर्धारित किया गया है। यह ऑर्डर उद्योग में सौर इनवर्टर और ऊर्जा भंडारण समाधानों की बढती मांग को उजागर करता है, जो उच्च गुणवत्ता वाले ऊर्जा समाधान प्रदान करने के प्रति कंपनी के समर्पण और क्षमता को मजबूत

**Building Trust & Partnerships** कंपनी की गतिविधयां : जीपी इको सॉल्यूशंस इंडिया लिमिटेड की स्थापना 2010

और लिथियम फेरो-फॉस्फेट (एलएफपी) बैटरी भी वितरित करती है। इनवर्गी हाइब्रिड और एलएफपी उत्पादों के ओईएम में हुई थी और कंपनी सोलर विनिर्माण में सिक्रय है। कंपनी इनवर्टर और सोलर पैनल की उत्तर भारत में सोलर इनवर्टर के आपूर्ति करती है। कंपनी लिए सनग्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वाणिज्यिक और आवासीय ग्राहकों या 'सनग्रो' की अधिकृत डीलर है, साथ ही उत्तर भारत में सोलर पैनल को व्यापक स्तर पर इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण ('ईपीसी') के लिए सात्विक ग्रीन एनर्जी सेवाएं प्रदान करके सौर ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड या 'सात्विक' और समाधान प्रदान करती है। कंपनी लॉन्गी सोलर टेक्नोलॉजी कंपनी अपने स्वयं के 'इनवर्गी' ब्रांड के लिमिटेड या 'लोंगी' की अधिकृत माध्यम से हाइब्रिड सोलर इनवर्टर

#### बिजनेस वर्टिकल

- 1. सोलर इनवर्टर और सोलर पैनल
- का वितरण क. ऑन ग्रिड सोलर इनवर्टर

ख. हाइब्रिड सोलर इनवर्टर और

- ग. सौर पैनल 2. सोलर ईपीसी
- 3. सोलर प्लांट का संचालन एवं

कंपनी की सोलर ईपीसी डिवीजन ने अभी तक 12 सरकारी सोलर परियोजनाएं स्थापित की है। वर्तमान में, कंपनी चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी को 12 परियोजनाओं के लिए संचालन और रखरखाव सेवाएं प्रदान

#### प्रितिका इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स लिमिटेड को अग्रणी एमएनसी ट्रैक्टर निर्माता से 50 करोड रुपये का ऑर्डर मिला



**बिजनेस रेमेडीज/नई दिल्ली।** प्रितिका इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स लिमिटेड भारत में ट्रैक्टर कंपोनेंट्स के अग्रणी निर्माताओं में से एक है। कंपनी ने शेयर बाजारों को सूचित किया है उसने लगभग एक महत्वपूर्ण ऑर्डर को अंतिम रूप दिया है। देश की अग्रणी एमएनसी ट्रैक्टर निर्माता से प्रति वर्ष 10 करोड़ रुपए ऑर्डर की दीर्घकालिक दृश्यता अगले पांच वर्षों तक फैली हुई है, जिसका कुल मूल्य 50 करोड़ रुपये है। यह ऑर्डर कृषि क्षेत्र के लिए उच्च ग्रुणवत्ता वाले घटकों को वितरित करने में कंपनी की क्षमताओं का एक मजबूत समर्थन दर्शाता है। इस ऑर्डर में ट्रैक्टरों के लिए डिज़ाइन किए गए नए बड़े कॉम्पोनेंद्स की प्रति माह लगभग 100 टन की आपूर्ति शामिल है। इन नए कॉम्पोनेंट्स का वजन १५० किलोग्राम से अधिक होगा, जो मजबूत, भारी वजन वाले उत्पाद बनाने में प्रितिका इंजीनियरिंग की विशेषज्ञता को रेखांकित करता है। यह नवीनतम ऑर्डर प्रितिका इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स लिमिटेड की ऑटोमोटिव उद्योग, विशेष रूप से कृषि क्षेत्र की उभरती जरूरतों को पूरा करने में नवाचार और उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है। कच्ची कारिटंग कंपनी की सहायक कंपनी मीता कास्टिंग्स लिमिटेड में एलएफसी प्रक्रिया द्वारा उत्पादित की जाएगी और कंपनी की मूल कंपनी प्रितिका ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के माध्यम से आपूर्ति की जाएगी।

# गोयल सॉल्ट ने अपनी वर्तमान पेशकश में गुलाबी/सेंधा नमक जोड़कर अपने ब्रांड पोर्टफोलियो का विस्तार किया बिजनेस रेमेडीज/जयपुर।

जयपुर आधारित प्रमुख नमक निर्माण कंपनी गोयल सॉल्ट ने शेयर बाजारों को सूचित किया है कि कंपनी ने अपनी वर्तमान पेशकश में गुलाबी/सेंधा नमक जोड़कर अपने ब्रांड पोर्टफोलियो का विस्तार किया है। कंपनी प्रबंधन के अनुसार बहुत सारी योजना, अनुसंधान एवं विकास, गुणवत्ता जांच और टीम प्रयासों के बाद, गोयल साल्ट लिमिटेड ('कंपनी') ने 'गोयल हिमालयन पिंक साल्ट' नाम से एक और नया उत्पाद सफलतापूर्वक लॉन्च किया है।

हिमालयन गुलाबी नमक को 'सेंधा नमक' के नाम से भी जाना जाता है जिसके कई संभावित स्वास्थ्य लाभ हैं और वे इस प्रकार हैं।

**पाचनः** सेंधा नमक पाचन, गैस, एसिडिटी और सीने की जलन में मदद कर

जलयोजनः सेंधा नमक शरीर को पानी अवशोषित करने में मदद करता है और निर्जलीकरण को रोकता है।

ब्लड प्रेशर: सेंधा नमक की पोटेशियम सामग्री रक्त चाप को स्थिर करने में मदद कर सकती है।

मेटाबॉलिज्म: सेंधा नमक मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा दे सकता है और वजन घटाने में मदद कर सकता है।



त्वचाः सेंधा नमक त्वचा के स्वास्थ्य में मदद कर सकता है, बंद रोमछिद्रों को खत्म कर सकता है और त्वचा को फिर से जीवंत कर सकता है।

तनावः सेंधा नमक से स्रान तनाव और चिंता को कम करने और बेहतर नींद को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है।

उपरोक्त लाभों के साथ सेंधा नमक के निम्नितिखत अन्य उपयोग भी हैं:

सेंधा नमक का उपयोग मांस और सब्जियों में मसाला डालने के लिए किया जा सकता है।सेंधा नमक का उपयोग प्राकृतिक वायु शोधक और डीह्यमिडिफायर के रूप में किया जा सकता है। सेंधा नमक का उपयोग चिकित्सीय पैर भिगोने और बॉडी स्क्रब के लिए किया जा सकता है। सेंधा नमक का उपयोग प्राकृतिक सफाई एजेंट के रूप में किया जा सकता है। इसलिए, इस लॉन्च के साथ कंपनी का मकसद सभी तरह के ग्राहकों तक पहुंचना है।

#### मध्यभारत एग्रो प्रोडक्टस लिमिटेड

सीआईएन: L24121RJ1997PLC029126, फोन न.- 01482-294582 ई-मेलः secretarial@mbapl.com वेबसाइट:www.mbapl.com

#### असाधारण आम बैठक एवं ई-वोटिंग की सूचना

एतद द्वारा सूचित किया जाता हैं कि मध्यभारत एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड के सदस्यों की असाधारण आम बैठक ('ईजीएम') गुरुवार 20 मार्च 2025 को सुबह 11:00 बजे (IST) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/ अन्य ऑडियो वीडियो साधन ('ओएवीएम') के माध्यम से भौतिक कोरम की उपस्थिति के बिना आयोजित की जाएगी। जिसमें ईजीएम के नोटिस में निर्धारित व्यवसाय को सम्पादित किया जायेगा। बैठक का मान्य स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा।

परिपत्रों के अनुपालन में, ईजीएम के नोटिस की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सभी सदस्यों को भेज दी गई हैं जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीपी) के साथ पंजीकृत हैं। ये दस्तावेज़ कंपनी की वेबसाइट www.mbapl.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड ('NSE') की वेबसाइट www.nseindia.com पर भी उपलब्ध हैं। ईमेल के माध्यम से ईजीएम की सूचना का प्रेषण २४ फरवरी, २०२५ को पूरा कर लिया गया है। ईजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सेबी (सचीबद्धता ढायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, २०१५ के विनियमन ४४ के अनपालन में, सबस्यों को 'बरस्थ ई- मतदान के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा प्रदान की गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली का उपयोग कर के ईजीएम के नोटिस में दिए गए प्रस्ताव पर अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान की जा रही है।

ईजीएम के दौरान मतदान की संविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी और वे सबस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्ताव पर अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा ऐसा करने से वर्जित नहीं हैं, वे ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से ईजीएम में मतदान करने के पात्र होंगे। व्यक्ति जिसका नाम सबस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए बेनिफिशियल ओनर के रजिस्टर में. कट-ऑफ तिथि.13 मार्च. 2025 को दर्ज है. केवल वही व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग वअसाधारण आम बैठक में मतदान की

ई-वोटिंग की अविध सोमवार, 17 मार्च, 2025 (9.00 बजे IST) से शुरू होती है और बुधवार 19 मार्च, 2025 (5.00 बजे IST) को समाप्त होती है। इस अवधि के दौरान, सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। इसके बाद NSDL द्वारा ई-वोटिंग मॉडयल निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

सबस्यों को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराए गए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाती है। सदस्य रिमोट ई-वोटिंग क्रेडोंश्यल्स का उपयोग करके www.evoting.nsdl.com पर वीसी के माध्यम से ईजीएम में भाग ले सकते हैं। ईजीएम का लिंक सदस्य के लॉगिन में उपलब्ध होगा जहां 'इवेंट' और 'कंपनी का नाम' चुना जा सकता है। ईजीएम की तारीख से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा वोट डालने वाले सदस्य भी ईजीएम में शामिल हो सकते हैं लेकिन फिर से वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने की विस्तृत प्रक्रिया ईजीएम के नोटिस में प्रदान की गई है। कोई भी व्यक्ति जो ईजीएम का नोटिस भेजने के बाद लेकिन कट-ऑफ तारीख यानी 13 मार्च, 2025 से पहले कंपनी का शेयरधारक बन जाता है, वह evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। यदि व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग के लिए पहले से ही NSDL के साथ पंजीकृत है तो वोट डालने के लिए मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है।

निदेशक मंडल ने ई-वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए मैसर्स सौरभ बापना एंड एसोसिएद्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के श्री सौरभ बापना को स्क्रूटिनीज़र नियुक्त किया है।

किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य www.evoting.nsdl.com की उपरोक्त वेबसाइट पर उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं। ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी शिकायत/प्रश्न के लिए, सबस्यों से अनुरोध है कि वे सुश्री पछवी सुखवाल, कंपनी सचिव, मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड सेविंग ए/1, प्रथम तल, ओस्टवाल हाइद्स, शहरी वन, आदून, भीलवाड़ा -311802,ईमेल: Secretarial@mbapl.com फ़ोन:01482-237104 पर संपर्क करें।

> निदेशक मंडल के आदेश द्वारा मध्यभारत एग्रो प्रोडक्टस लिमिटेड हस्ताक्षरित /-(पल्लवी सुखवाल)

तिथि-24/02/2025

में निवेशक सिर्फ़ 250 रुपये से एसआईपी शुरू कर सकते हैं। पहली बार निवेश करने वाले निवेशकों और निर्धन लोगों के लिए यह योजना अच्छी है। तरुण योजना स्कूलों में बच्चों को निवेश के बारे में सिखाया जाएगा। मित्र एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जिससे लोग अपने पुराने या भूले हुए म्यूचुअल फंड निवेश को ढूंढ सकते हैं। परिवार वाले निवेशक की मृत्यु के बाद भी यह काम कर सकते हैं। इससे लोगों को अपने पैसे वापस मिलने में आसानी होगी। ये सभी योजनाएं

अभी भी बहुत से लोग निवेश नहीं करते हैं। इसकी कई

युवाओं के लिए बनाई गई है। मित्र योजना में निवेशक विशेषज्ञों की मदद से निवेश कर सकते हैं। छोटी एसआईपी निवेशकों के लिए फायदेमंद हैं। भारत में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में 65 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा का निवेश है। निवेशक अब म्यूचुअल फंड में ज्यादा निवेश कर रहे हैं और लंबे समय के लिए निवेश करना पसंद कर रहे हैं। लेकिन

एसआईपी, तरुण योजना और मित्र' जारी की **बिजनेस रेमेडीज/नई दिल्ली**। भारतीय म्यूचुअल फंड संघ वजहें हैं जैसे कि निवेश के बारे में जानकारी न होना, निवेश (एम्फी) ने तीन नई पहल छोटी एसआईपी, तरुण योजना के तरीके समझ न आना या फिर निवेश शुरू करने के लिए और मित्र जारी की है। विशेषज्ञों के अनुसार इनसे निवेश ज़रूरी सुविधाएं न होना। एम्फी लोगों को निवेश के बारे में करना आसान होगा और भुले हुए म्यूच्यअल फंड को ढंढना शिक्षित कर रहा है, सेबी के साथ मिलकर काम कर रहा है

> और नए-नए तरीके ढूंढ रहा है जिससे आम लोग भी आसानी से निवेश कर सकें। सेबी की चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच ने इस अवसर पर कहा, 'भारत के वित्तीय बाजार को मजबूत बनाने के लिए निवेशकों की भागीदारी बहुत जरूरी है। एम्फीकी ये पहल न केवल ज्यादा से ज्यादा लोगों को निवेश के लिए प्रोत्साहित करेंगी

कम पैसे से भी निवेश शुरू कर सकते हैं। तरुण योजना बल्कि म्यूचुअल फंड निवेश में पारदर्शिता, सुरक्षा और आसान पहुँच सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी उपकरण भी प्रदान करेंगी।' वह वित्तीय समावेशन और निवेशक सुरक्षा के महत्व पर ज़ोर दे रही थीं।

> एम्फी के चेयरमैन नवनीत मुनोत ने कहा, 'म्यूचुअल फंड वितीय सशक्ति करण का एक महत्वपूर्ण आधार हैं। ये लोगों को भारत की विकास गाथा में भागीदार बनने का

> ये नई योजनाएं इस बात को सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई हैं कि निवेश न केवल सुलभ हो बल्कि सुरक्षित, पारदर्शी और हर भारतीय की वित्तीय भलाई के लिए हो। ज्यादा से ज्यादा लोगों को निवेश से जोड़कर, कम उम्र में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देकर, और निवेशकों को वित्तीय दुनिया को समझने के लिए ज़रूरी उपकरण देकर, हमारा लक्ष्य एक मज़बूत और समावेशी निवेश संस्कृति का निर्माण



ईमेल आईडी : cs@gicl.co, वेबसाइट : www.gicl.co सूचना एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 और अंतर्गत बनाए गए नियमों और सेबी (सूचीबद्धता

 $\underline{www.nseindia.com}$  पर भी उपलब्ध कराई जाएगी।

देख सकते हैं या <u>helpdesk.evoting@cdslindia.com</u> पर एक ई-मेल लिख सकते हैं।

कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

**दिनांक: 25.02.2025** 

स्थानः जयपुर



# Madhya Bharat Agro Products Limited

Regd. Off.: Wing A/1, 1st Floor, Ostwal Heights, Urban Forest, Atun, Bhilwara, 311802 Rajasthan CIN:L24121RJ1997PLC029126, Ph.: 01482-294582

Website- www.mbapl.com, Email- secretarial@mbapl.com

#### NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING AND INFORMATION ON E -VOTING

Notice is hereby given that the Extra Ordinary General Meeting ('EGM') of the Members of Madhya Bharat Agro Products Limited will be held on Thursday, the 20th March 2025 at 11:00 a.m. (IST) through video conferencing ("VC") / other Audio Video Means ('OAVM") without presence of physical quorum to transact the business as set in the Notice of EGM. The deemed venue of the meeting shall be the registered office of the company.

In compliance with the Circulars, electronic copies of the Notice of the EGM, have been sent to all members whose email addresses are registered with the Company/Depository Participants (DPs). These documents also be available on the website of the Company at www.mbapl.com and on the website of National Stock Exchange of India Limited ("NSE") at www.nseindia.com. The dispatch of Notice of the EGM through emails has been completed on 24th February, 2025.

Remote e-voting and e-voting during the EGM:

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of the EGM using electronic voting system provided by National Securities Depository Limited (NSDL) ('remote e-voting'). The facility of voting will also be made available during the EGM and those members who have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through the e-voting system at the EGM. A Person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owner maintained by the depositories as on the cut-off date, i.e., 13th March, 2025, will only be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the Extra Ordinary General Meeting.

The e-voting period commences on Monday, March 17, 2025 (9.00 a.m. IST) and ends on Wednesday, March19, 2025 (5.00 p.m. IST). During this period, Members may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter.

Members are provided with a facility to attend the EGM through electronic platform provided by National Securities Depository Limited. Members may access the platform to attend the EGM through VC at www.evoting.nsdl.com by using the remote e-voting credentials. The link for the EGM will be available in the member's login where the "Event" and the "Name of the company" can be selected. The Members who cast their votes by remote e-voting prior to the date of EGM may also attend the EGM but shall not be entitled to cast their vote again.

Detailed procedure of remote e-voting / e-voting and attending the EGM through VC/ OAVM has been provided in the notice of EGM. Any person who becomes shareholder of the company after sending the notice of the EGM but before the cut-off date,i.e. 13th March, 2025may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. However, if the person is already registered with NSDL for remote e-voting then the existing user ID and password can be

The Board of Directors has appointed Mr. SourabhBapna of M/s SourabhBapna& Associates, Practicing Company Secretary as the Scrutinizer for conducting E-voting process in a fair and transparent manner.

In case of any queries, members may refer the Frequently Asked Question (FAQs) and e-voting user manual for shareholders available at the above website of the www.evoting.nsdl.com. For any grievance/ queries relating to e-voting, members are requested to contact Ms. PallaviSukhwal, Company Secretary, Madhya Bharat Agro Products Limited at Wing A/1, 1st Floor, Ostwal Heights, Urban Forest, Atun, Bhilwara -311802, Email: secretarial@mbapl.com, Tel:01482-294582

By Order of the Board of Directors For Madhya Bharat Agro Products Limited Place: Bhilwara (Pallavi Sukhwal) Dated: 24/02/2025 Company Secretary



BHAROSA APNO KA

**HDFC Asset Management Company Limited** CIN: L65991MH1999PLC123027

Registered Office: HDFC House, 2nd Floor, H.T. Parekh Marg, 165-166, Backbay Reclamation, Churchgate, Mumbai - 400 020, Phone: 022 66316333 • Toll Free Nos: 1800-3010-6767 / 1800-419-7676 e-mail: hello@hdfcfund.com . Visit us at: www.hdfcfund.com

# NOTICE

NOTICE is hereby given that HDFC Trustee Company Limited, Trustee to HDFC Mutual Fund ("the Fund"), has approved the following distribution under Income Distribution cum Capital Withdrawal ("IDCW") Options of HDFC Dividend Yield Fund, HDFC Large and Mid Cap Fund and HDFC Large Cap Fund ("the Schemes") and fixed Friday, February 28, 2025 (or the immediately following Business Day, if that day is not a Business Day) as the Record Date for the same:

Name of the Scheme / Plan(s) / Option(s)	Amount of Distribution (₹ per unit)#	Net Asset Value ("NAV") as on February 21, 2025 (₹ per unit)	Face Value (₹ per unit)
HDFC Dividend Yield Fund - Regular Plan - IDCW Option (Payout and Reinvestment)	1.50	20.797	
HDFC Dividend Yield Fund - Direct Plan - IDCW Option (Payout and Reinvestment)	1.50	22.224	10.00
HDFC Large and Mid Cap Fund - Regular Plan - IDCW Option (Payout and Reinvestment)	2.50	35.614	
HDFC Large and Mid Cap Fund - Direct Plan - IDCW Option (Payout and Reinvestment)	2.50	45.597	
HDFC Large Cap Fund* - Regular Plan - IDCW Option (Payout and Reinvestment)	5.50	58.602	
HDFC Large Cap Fund* - Direct Plan - IDCW Option (Payout and Reinvestment)	5.50	67.850	

\*Erstwhile known as HDFC Top 100 Fund

#Amount of distribution per unit will be the lower of that mentioned above or the available distributable surplus (rounded down to a multiple of five at the third decimal) as on the Record Date.

Pursuant to the Distribution, the NAV of the IDCW Option(s) of the above Schemes would fall to the extent of such distribution and statutory levy, if any.

Amount will be paid, net of applicable tax deducted at source (TDS), to those Unit holders / Beneficial Owners whose names appear in the Register of Unit holders maintained by the Fund / Statements of Beneficial Ownership maintained by the Depositories, as applicable, under the IDCW Option(s) of the aforesaid Schemes on the Record Date (including investors whose valid purchase / switch-in requests are received by the Fund and the funds are available for utilization before cut-off timings in respect of the aforesaid Schemes, on the Record date),

With regard to Unit holders who have opted for Reinvestment facility under the IDCW Option(s), the amount due (net of applicable TDS) will be reinvested, by allotting Units at the applicable NAV per Unit (adjusted for applicable stamp duty).

As mandated under SEBI (Mutual Funds) Regulations and Master circular for Mutual Funds dated June 27, 2024, for redemptions and IDCW declared, payout will be done only through electronic mode(s), even where a Unit holder has opted to receive physical instruments. Thus, payment of such amounts shall be made through physical instruments, only in exceptional circumstances for reasons to be recorded by the AMC. Accordingly, unit holders who have opted for / have earlier received physical instruments are requested to update their bank account details by / sending us a copy of a cancelled cheque of first / sole holder's bank account.

All updations of PAN, KYC, email address, mobile number, nominee details, etc. should immediately be forwarded to the Investor Services Centers of the Fund (for units held in non-demat form) / Depository Participant (for units held in demat form). Unit holders are also advised to link their PAN with Aadhaar Number. Further, Unit holders can view the Investor Charter available on website of the Fund as well as check for any unclaimed redemptions or IDCW payments.

In view of individual nature of tax consequences, each investor should seek appropriate advice.

For HDFC Asset Management Company Limited (Investment Manager to HDFC Mutual Fund)

Place: Mumbai Date: February 24, 2025 Authorized Signatory

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.

Proposing REGD. OFFICE: 9th Floor, Antriksh Bhawan, 22, K.G. Marg. New Delhi-110001, PH: 011-23357171, 23357172, 23705414, Website: www.untshousing.com nance Limited BRANCH ADDRESS:- Ist Floor, Pinacle Tower, Vaishali Corner, Garh Road, Meerut-250004, (U.P.)

POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY)

Whereas the undersigned being the Authorised Officer of the PNB Housing Finance Ltd. under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets & in compliance of Rule 8(1) of Enforcement of Security Interest Act, 2002, and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued demand notice/s on the date mentioned against each account calling upon the respective borrower/s to repay the amount as mentioned against each account within 60 days from the date of notice(s)/ date of

The borrower/s having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower/s and the public in general that the undersigned has taken possession of the property/les described herein below in exercise powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules on the dates mentioned against each account.

The borrower/s in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property/ies and any dealing with the property/ies will be subject to the charge of PNB Housing Finance Ltd., for the amount and interest thereon as per loan agreement. The borrowers'

Borrower/Co- Borrower/Guarantor	Demand Notice Date	Amount Outstanding	Date of Possession Taken	Description Of The Property Mortgaged
Mr. Deepak Garg & Mrs. Mayawati	07.11.2024	Rs. 30,19,148.56 (Rupees Thirty Lakh Nineteen Thousand One Hundred Forty Eight And Fifty Six Paisa Only)	20.02.2025 (Physical)	MPL No. 2129, Khasra No. 857 And 893, Ward No 30, Indra Nagar, Brahampuri, Meerut, Uttar Pradesh - 250002
	Borrower/Guarantor Mr. Deepak Garg	Borrower/Guarantor Date Mr. Deepak Garg 07.11.2024	Mr. Deepak Garg 8 Mrs. Mayawati 07.11.2024 Rs. 30,19,148.56 (Rupees Thirty Lakh Nineteen Thousand One Hundred Forty	Mr. Deepak Garg 8 Mrs. Mayawati 07.11.2024 Rs. 30,19,148.56 (Rupees Thirty Lakh Nineteen Thousand One Hundred Forty

#### Honda India Power Products Limited CIN: L40103DL2004PLC203950

Registered Office: 409, DLF Tower B, Jasola Commercial Complex, New Delhi - 110025 Website: www.hondaindiapower.com | E-Mail:ho.legal@hspp.com Phone: +91- 01141082210

POSTAL BALLOT NOTICE

Members are hereby informed that in compliance with the provisions of Section 108, 110 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 read together with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended; (ii) applicable provisions of Secretarial Standard-2 issued by the Institute of Company Secretaries of India from time to time; (iii) General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 22/2020 dated June 15, 2020, Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020, Circular No. 39/2020 dated December 31, 2020, Circular No. 10/2021 dated June 23, 2021 Circular No. 20/2021 dated December 08, 2021, Circular No. 03/2022 dated May 05, 2022 and Circular No. 11/2022 dated December 28, 2022, 09/2023 dated September 25, 2023 and 09/2024 dated September 19, 2024, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA"); and (iv) Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Regularements) Regulations, 2015, the Notice is sent for seeking approval of the shareholders of the Company by Postal Ballot by way of electronic means ('e-voting'), for following Special Businesses:-

Re-appointment of Mr. Ravi Prakash Mehrotra (DIN: 06823899) as an Independent Director.

Appointment of Mr. Yasuhiro Takabatake (DIN 10909958) as a Director (Non-executive/Non-Independent). Revision in remuneration payable to Mr. Vinay Mittal (DIN 05242535), Whole Time Director of the Company,

The Company has completed the dispatch of the aforementioned Postal Ballot Notice on February 24, 2025 to all the Members of the Company, who have registered their email addresses with the Company/ Registrar and Share Transfer Agent ('RTA')/ Depository Participant(s) and are entitled to cast their votes as on the Cut-off date being February 18, 2025, for seeking their consent on the resolutions listed in the said notice (along with the explanatory statement thereto).

Please treat this notice as our attempt to reach out to all the Members including those who have missed or not received other communication on this subject matter and intend to participate in proposed Postal Ballot/ e-voting. Considering the relaxations provided by the MCA, hard copies of the Postal Ballot Notice alongwith relevant forms and prepaid envelops have not been sent to the members for this Postal Ballot. Please note that -

- For Shareholders who have not received the notice due to change/ non-registration of their e-mail address with the Company/ RTA Depository Participants, they may request for the notice by sending an email to investor@masserv.com\_along with a scanner copy of Share Certificate/ Client Master. On receipt of such request, the shareholder would be provided soft copy of the notice and the procedure for e-voting along with the User ID and the Password to enable e-voting for this Postal Ballot. It is clarified that fo registration/ updation of email address, the shareholders who are holding the shares in dematerialized form are requested to contact their respective Depository Participants and the shareholders who are holding shares in physical form are requested to submit the duly executed form with the RTA. The shareholders who wish to obtain the e-mail registration/ updation form can send an email at investor@masserv.com . Those Members who have already registered their email addresses are requested to keep their email addresses validated with their Depository Participants/ RTA/ Company to enable servicing of notices/ documents/ Annual Reports electronically to their email address.
- The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited ('NSDL') for the purpose of providing e-voting facility to all its Members. Members are requested to note that the voting through electronic mode shall commence from Tuesday February 25, 2025 (09:00 Hours IST) and shall end on Wednesday, March 26, 2025 (17:00 Hours IST).

The members whose names appeared on the Register of Members/ List of Beneficial Owners as on the Cut-off date shall be only eligible to vote by way of Postal Ballot/e-voting.

The Board of Directors of the Company have appointed Ms. Saryu Munjal, Proprietor of M/s Saryu Munjal & Associates, Company Secretaries as a Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting process in a fair and transparent manner. Members are requested to note that the e-voting platform shall not be available to the Members after 17:00 Hours on March 26, 2025.

The Postal Ballot Notice along with the explanatory statement and other annexure can also be downloaded from the Company's website i.e. www.hondaindiapower.com or from the website of NSDL, i.e. www.evoting@nsdl.co.in or the website of BSE Limited

and National Stock Exchange of India Limited, where the equity shares of the Company are presently listed. The result of the Postal Ballot shall be announced by the CMD and President & CEO of the Company or any other person authorized by him on or before Friday, March 28, 2025 and the same would also be intimated to the NSE and BSE and will also be hosted on

the website of the Company and NSDL, i.e. www.hondaindiapower.com and www.evoting@nsdl.co.in, respectively. In case of any query/ grievance related to e-voting or Postal Ballot, Members may approach M/s Mas Services Limited, RTA of the Company at T-34, 2nd Floor, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020, Ph:- 011 26387281/82/83, Fax:- 011 26387384 or

For Honda India Power Products Limited

February 24, 2025 New Delhi

Date

MUTUAL

Sahi Hai

Sunita Ganjoo Company Secretary and Compliance Officer

#### **DECCAN BEARINGS LIMITED** Corporate Identification Number: L29130MH1985PLC035747;

Registered Office: 136, B Wing Ansa Industrial Estate, Saki vihar Road, Sakinaka, Andheri (East), Mumbai, Maharashtra, 400072; Contact Number: +91-9223400434; Email Address: cs.deccanbearingsltd@gmail.com; Website: www.deccanbearings.in;

Recommendations of the Committee of Independent Directors ('IDC') of Deccan Bearings Limited ('Target Company') in relation

to the Open Offer ('Offer') made by Mr. Satyajit Mishra (Acquirer), to the Public Shareholders of the Target Company under the provisions of Regulation 26(7) of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations. 2011 and Subsequent Amendments thereto ('SEBI (SAST) Regulations').

Monday, February 24, 2025

Date	Monday, 1 oblidary 2 1, 2020				
Name of the Target Company	Deccan Bearings Limited				
Details of the Offer pertaining to the Target Company	Open offer being made by the Acquirer for acquisition of up to 5,67,667 Offer Shares representing 26.00% of the Voting Share Capital of the Target Company, at a price of ₹4.00/- per Offer Share, payable in cash, assuming full acceptance aggregating to a maximum consideration of ₹22,70,668.00/- payable in cash				
Name of the Acquirer and Persons Acting in Concert with the Acquirer	Mr. Satyajit Mishra There is no person acting in concert for this Offer.				
Name of the Manager to the Offer	Swaraj Shares and Securities Private Limited				
Members of the Committee of Independent	Sr. Name of the Independent Directors	Designation			
Directors (IDC)	No.				
	1. Mr. Sandip Pawar	Chairman			
	2. Ms. Shilpa Parab	Member			
	3. Ms. Aakansha Vaid	Member			
IDC Marshavia relationship with the Torret	4. Mr. Nitin Arvind Oza	Member			
IDC Member's relationship with the Target Company (Director, Equity shares owned, any other contract/relationship), if any	<ol> <li>All IDC Members are Independent Directors and Non-Executive Directors of the Board of the Target Company.</li> <li>IDC Members have not entered into any other contract or have other relationship with the Target Company.</li> </ol>				
Trading in the Equity Shares/other securities of the Target Company by IDC Members	IDC Members have confirmed that they have not traded in the Equity Shares of the Target Company from the date of the Public Announcement till the date of thi Recommendations.				
IDC Member's relationship with the Acquirer (Director, Equity shares owned, any other contract/ relationship), if any.	None of the IDC Members hold any contract, nor have any direct or indirect relationshi with the Acquirer, in their personal capacities.				
Trading in the equity shares/other securities of the acquirer by IDC Members	Since, the Acquirer is an individual, the details of trading in the Equity Shares/other securities of the Acquirer by IDC Member, is not relevant.				
the offer, is or is not, fair, and reasonable	behalf of the Acquirer, IDC Members believe that the Offer is fai in line with the SEBI (SAST) Regulations. The shareholders evaluate the Offer, the market performance of the Equity sinformed decision in the best of their interests. Further, the should independently review the Letter of Offer dated Monday including the risk factors described therein before taking any of this Offer.	s may independentl Shares, and take a Public Shareholders y, February 17, 2025			
Summary of reasons for the recommendation	IDC Members have taken into consideration and reviewed Documents for making the recommendation:  a) The Public Announcement dated Tuesday, August Announcement');  b) Detailed Public Statement dated Monday, August 19, 202 this Offer, published on behalf of the Acquirer on Tuesd in Financial Express (English daily) (All India Edition), (All India Edition) and Mumbai Lakshadeep (Marathi da ('Detailed Public Statement');  c) Draft Letter of Offer dated Tuesday, August 27, 2024, file SEBI pursuant to the provisions of Regulation 16 (1) Regulations ('Draft Letter of Offer');  d) Copy of the Corrigendum to the Public Announcement and Statement dated Saturday, November 09, 2024, published on Monday, November 11, 2024, in the Newspapers. ('Precum corrigendum to the detailed public statement on Monday, February 17, 2025 ('Letter of Offer');  The Offer Price is in terms of Regulation 8(2) of the SEBI (SAST) on the review of the aforesaid Offer Documents, the IDC Menthat the Offer Price is in line with the parameters prescribed (SAST) Regulations.	13, 2024 ('Public 24, in connection with lay, August 20, 2024 Jansatta (Hindi daily illy) (Mumbai Edition 2d and submitted with of the SEBI (SAST and the Detailed Public 1 on behalf of Acquire offer advertisement proposed') and Form SH-4 dates T) Regulations. Basembers are of the view			
Disclosure of Voting Pattern	These recommendations have been unanimously approved by	by the IDC Member			
Details of Independent Advisors, if any	None				

all material respect, true and correct and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the information required to be disclosed by the Target Company under the Regulations.

For and on behalf of the Committee of Independent Directors **Deccan Bearings Limited** 

> Mr. Sandip Pawar Chairman of the IDC (DIN: 05245634)

> > Place : Surat

New Delhi

Date: February 24, 2025



NMDC

### NMDC Limited (A Government of India Enterprise) 'Khanij Bhavan', 10-3-311/A, Castle Hills, Masab Tank, Hyderabad-500028 Corporate Identity Number (CIN) – L13100TG1958GOI001674

WORKS DIVISION CONTRACTS DEPARTMENT

Tender Enquiry No: HO(Works)/Contracts/R&D/250kWp RTS/2024/ 1052/237 Dtd. 25.02.2025

NMDC Limited, A "NAVARATNA" Public Sector Company under Ministry of Steel, Govt. of India, invites online bids through MSTC Portal from experienced, reputed and competent domestic bidders for the work of DESIGN, SUPPLY, ERECTION, INTEGRATION WITH EXISTING ELECTRICAL SYSTEM, PARALLELING / SYNCHRONIZING WITH ELECTRICITY BOARD & DG SET GRIDS AND COMMISSIONING OF 250KWP ROOFTOP SOLAR PV POWER PLANT". The detailed NIT and Bid documents can be viewed and / or downloaded from

25.02.2025 to 24.03.2025 from following website links: NMDC website http://www.nmdc.co.in

2. Central Public Procurement Portal (CPP PORTAL) http://www.eprocure.gov.in/epublish/app MSTC portal - https://www.mstcecommerce.com/eprocn/

For accessing the bid document from MSTC portal, bidder has to visit at MSTC website link https://www.mstcecommerce.com/eprocn/ and search Tender Event No. NMDC/Head Office/Contract/28/24-25/ET/563. For further help efer to 'vendor guide' given in MSTC website.

The bidders are requested to submit their bids online through MSTC Limited e-procurement website

For further clarification, the following can be contacted:

General Manager (Contracts, Projects & Steel), NMDC Limited, Hyderabad, Fax No. 040-23534746, Tel. No. 040-23532800, email: contracts@nmdc.co.in For and on behalf of NMDC Ltd

> FORM NO. NCLT 3A **Advertisement Detailing Petition**

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL.

BENCH-II CHANDIGARH In the matter of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

**Executive Director (Works)** 

And In the Matter of Section 7 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 read with rule 4 of the insolvency

In the Matter of Central Bank of India Stressed Assets Management Branch,

and Bankruptcy Rules, 2016 And

Jeevan Tara Building, 5, Parliament Street. New Delhi-110001 M/s. BTL HOLDING CO. LTD.

CIN- U65929HR1993PLC053518 Registered Office: SRS Multiplex, Top Floor, City Center, Sector-J 2, Faridabad, Haryana-121007

202, 27 New Delhi House Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi-110001

Company Petition / No.(IB) 41 / CH/2025 NOTICE OF PETITION

A petition/ application /reference (Case Title: Central Bank of India Vs M/s. BTL Holding Co. Ltd.) under section 7 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 read with rule 4 of the Insolvency and Bankruptcy (Application to Adjudicating Authority) Rules, 2016 for initiating a insolvency proceedings, was presented by BKM & Associate on the 1st Day of January 2025, and the said petition is fixed for hearing before Bench-II of National Company Law Tribunal, Chandigarh on 27.03.2025. Any person desirous of supporting or opposing the said petition / application/reference should send to the petitioner's advocate, notice of his intention, signed by him or his advocate, with his name and address, so as to reach the petitioner's advocate not later than two days before the date fixed for the hearing of the petition / application /reference. Where he seeks to oppose the petition /application / reference, the grounds of opposition or a copy of his affidavit shall be furnished with such notice. A copy of the petition / application / reference will be furnished by the undersigned to any person requiring the same on payment of the prescribed charges for the same. (Sd/-) BKM & ASSOCIATES

Advocates, Solicitors & Consultants, Dated - 24/02/2025 Counsel for the Financial Creditors 206, AJ, Chambers, Naiwala Bank Street, Karolbagh, New Delhi-110005. Mobile: 9868113796, E-mail: bkmdelhi@gmail.com

FORM NO. NCLT 3A

**Advertisement Detailing Petition** BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL.

BENCH-II CHANDIGARH In the matter of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

In the Matter of Section 7 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

read with rule 4 of the insolvency and Bankruptcy Rules, 2016 And In the Matter of Central Bank of India

Jeevan Tara Building, 5, Parliament Street, New Delhi-110001 M/s. SRS AUTOMOTIVE COMPONENTS PVT. LTD. CIN- U29253HR1983PTC048396

Registered Office: SRS Multiplex, Top Floor, City Center, Sector-J 2, Fandabad, Haryana-121007

Stressed Assets Management Branch,

SRS Tower, 3rd Floor, Near Metro Station Mewla Maharajpur, G.T. Road

Faridabad, Haryana-121003 India Company Petition / No.(IB) 42 / CH/2025

NOTICE OF PETITION

A petition/ application /reference (Case Title: Central Bank of India Vs M/s. SRS Automotive Components Pvt. Ltd.) under section 7 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 read with rule 4 of the Insolvency and Bankruptcy (Application to Adjudicating Authority) Rules, 2016 for initiating a insolvency proceedings, was presented by BKM &

Associate on the 1st Day of January 2025, and the said petition is fixed for hearing before Bench-II of National Company Law Tribunal, Chandigarh on 27.03.2025. Any person desirous of supporting or opposing the said petition / application/reference should send to the petitioner's advocate, notice of his intention, signed by him or his advocate, with his name and address, so as to reach the petitioner's advocate not later than two days before the date fixed for the hearing of the petition / application /reference. Where he seeks to oppose the petition /application / reference, the grounds of opposition or a copy of his affidavit shall be furnished with such notice. A copy of the petition / application / reference will be furnished by the undersigned to any person requiring the same on payment of the prescribed charges for the same. (Sd/-) BKM & ASSOCIATES Advocates, Solicitors & Consultants. Dated - 24/02/2025

Counsel for the Financial Creditors 206, AJ, Chambers, Naiwala Bank Street, Karolbagh, New Delhi-110005. Mobile: 9868113796, E-mail: bkmdelhi@gmail.com



CIN: L24100GJ2007PLC051093

Reg. Address: Plot No. 440/4, 5 & 6, Road No. 82/A, GIDC Sachin, Surat- 394230, Gujarat.

Email: investorinfo@amiorganics.com Website: www.amiorganics.com NOTICE OF POSTAL BALLOT & REMOTE E-VOTING

NOTICE is hereby given to the members that pursuant to the provisions of Sections 108 and 110

of the Companies Act, 2013, read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and lisclosure Requirements) Regulations, 2015, and other applicable provisions of the Acts, Rules Regulations, Circulars and Notifications issued thereunder (including any statutory modifications or re-enactment thereof for the time being in force and as amended from time to time), if any, for seeking approval of the members of Ami Organics Limited ("the Company") by means of Postal Ballot through remote e-voting for approval of sub-division/ split of existing. Equity Shares of Company and alteration of capital clause of the Memorandum of Association of the Company to give effect to the subdivision/split, by way of ordinary resolutions as per the details mentioned in the Postal Ballot Notice dated February 21, 2025 ("Notice") The Company has completed the dispatch of the Notice on Monday, February 24, 2025 only

through electronic mode by email to those members, whose names appeared in the register of members/list of beneficial owners as on Friday, February 21, 2025 ("Cut-off date") and whose e-mail addresses are registered with the Company or MUFG Intime India Private Limited, the Registrar & Transfer Agents or Depositories or Depository Participant. Those members who have not received Notice may send an e-mail to investorinfo@amlorganics.com. No physical copy of Notice has been sent to members and the communication of assent/dissent of members shall be registered only through remote-evoting. Company has engaged the services of MUFG Intime India Private Limited ("MUFG Intime"), for

providing the remote e-voting facility to all its members to enable them to cast their vote electronically on the resolutions set forth in the Notice, members are requested to note that e-voting shall commence on Tuesday, February 25, 2025 at 09.00 A.M.(IST) and shall end on Wednesday, March 26, 2025 at 5.00 P.M. (IST). The remote e-voting module shall be disabled thereafter. The voting rights of members shall be reckoned as on the Cut-off date i.e. Friday. February 21, 2025. A person who is not a member as on the Cut-off date should treat the notice of Postal Ballot for information purpose only.

The Postal Ballot Notice along with the instructions for e-voting are available on the website of the Company at www.amiorganics.com BSE Limited viz. www.bseindia.com and National Stock Exchange Limited at www.nseindia.com and on the website of the e-voting agency MUFG Intime at https://instavote.linkintime.co.in.

The Board of Directors of Company have appointed CS Kashyap Shah (ICSI Membership No. FCS 7662), of M/s. Kashyap Shah & Co., Practicing Company Secretaries, Vadodara, as Scrutinizer for conducting the postal ballot process through remote e-voting. The results of the Postal Ballot will be declared by the Company on or before Friday, March 28, 2025. The said results along with the Scrutinizer's Report shall be displayed on the website of the Company at www.amiorganics.com, BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange Limited at www.nseindia.com and on the website of MUFG Intime at https://instavote.linkintime.co.in.

In case of any query/grievance in connection with the Postal Ballot through the remote e-voting process, members may contact Mr. Rajiv Ranjan, Assistant Vice President, MUFG Intime at enotices@in.mpms.mufg.com or the Company at investorinfo@amiorganics.com.

By order of the Board of Directors For Ami Organics Limited

CS Ekta Kumari Srivastava Company Secretary & Compliance Officer

None

To the best of our knowledge and belief, after making the proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement is, in

Terms not defined herein carry the meaning prescribed to them in the Letter of Offer dated Monday, February 17, 2025.

Any other matter to be highlighted

Date: Monday, February 24, 2025

Place: Mumbai

